



Indowind Energy Ltd

CIN : L40108TN1995PLC032311

E-mail : contact@indowind.com

17th December, 2025

BSE LIMITED

The General Manager,
The Corporate Relation Department,
Phiroze Jeejoybhoy Tower,
44+ Floor, Dalal Street,
Mumbai — 400 001
Scrip Code: 532894

**NATIONAL STOCK EXCHANGE
OF INDIA LIMITED**

Listing Department
Exchange Plaza, Bandra Kurla
Complex, -Bandra (E),
Mumbai — 400 051
NSE Symbol: INDOWIND

Dear Sir/Madam,

Newspaper publication as per Regulation 92(1) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018 (“SEBI ICDR Regulations”) and Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 with respect to Right Issue

With respect to the Rights Issue of fully paid-up Equity Shares of our Company, this is to confirm that in accordance with Regulation 92(1) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (“SEBI ICDR Regulations”), the Company has issued the following public announcement (the “Post-Issue Advertisement”) published on 17th December, 2025, in the following newspapers:

- (i) Financial Express (English national daily newspaper with wide circulation),
- (ii) Jansatta (Hindi national daily newspaper with wide circulation) and
- (iii) The Hindu (Tamil daily newspaper / Chennai Edition).

Please find enclosed copy of the Post-Issue Advertisement dated 17th December, 2025 in the above mentioned newspapers.

Also this intimation may be considered as compliance with Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

All capitalized terms used in this letter and not defined shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

We request you to take the above on record.
Yours faithfully,

For INDOWIND ENERGY LIMITED

**B SHARATH
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER**



Criminal Courts Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)
In the court of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana
M/s UP Money
Vs.
Nirmala Devi
CNR NO: PBLD03-040020-2024
COMA/39687/2024
1. Nirmala devi w/o jai kishan r/o h. no 37237/ gali no 4 gandhi nagar thansear kushkhetra haryana 136118
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 13-01-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and seal of the court, for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=districnt_n_oice&district=ludhiana
JMJC, Ludhiana
dated, this day of 19.11.2025

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Gurdev singh Judicial Magistrate- 1st Class Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs
Birjesh
CNR NO: PBLD03-017040-2021
Next date: 05-01-2026
detail of offence:-
Notice To: Birjesh : S/o Radha Devi, R/o A 15, Badli Ext, Samaipur, Delhi 110042 Delhi
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 05-01-2026 at 10:00 a.m. for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=districnt_notice&district=ludhiana
Judicial Magistrate- 1st Class, Ludhiana
Dated, this day of 11-12-2025

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Yogesh Gill Judicial Magistrate First Class-20 Jalandhar
Exclusive Leasing And Finance Pvt Ltd
Vs.
Arjan Pal
NACT/2492/2024
CNR NO: PBJL03-008983-2024
Next date: 07-01-2026
complaint U/S 138 NI ACT
Notice To: Arjan Pal : Prabhat Maheshpur Near Chaupal Palwal Haryana
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 07-01-2026 at 10:00 a.m. for detail login to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=districnt_notice&district=Jalandhar
Judicial Magistrate-First Class-20 Jalandhar
Dated, this day of 02-12-2025

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Gurdev singh Judicial Magistrate- 1st Class Ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd
Vs
Rizwan ahmad
CNR NO: PBLD03-018137-2023
Next date: 17-12-2025
detail of offence:-
Notice To: Rizwan Ahmad: S/o Rafiq Ahmad R/o H No 163 Lalpur Kalan, Thana Tanda Tehsil Tandra, Rampur 244927, Uttar Pradesh
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 17-12-2025 at 10:00 a.m. for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=districnt_notice&district=ludhiana
Judicial Magistrate- 1st Class, Ludhiana
dated, this day of 11-12-2024

Criminal Courts Ludhiana


(complaint-138 negotiable instrument act)
In the court of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
Mohd Rafiq
CNR NO: PBLD03-034453-2024
COMA/10369/2024
1. Mohd. Rafiq Relative Of Address: R/o Chandan Hula, Post- Fatehpura Beri District Dakshin Delhi- 110074 Delhi
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 16-01-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and seal of the court, for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=districnt_oice&district=ludhiana
JMJC, Ludhiana
dated, this day of 04.12.2025

Criminal Courts Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)
In the court of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana
M/s Bajaj Finance Limited
Vs.
Baljeet Singh
CNR NO: PBL03-040214-2024
COMA/39759/2024
1. Baljeet singh prop of b s enterprises house no 114 ward no 13 near sukhpura chowk rohtak haryana 124001
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 03-01-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and seal of the court, for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=districnt_oice&district=ludhiana
JMJC, Ludhiana
dated, this day of 04.12.2025

“IMPORTANT”

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify the content of the advertisement. Financial Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damages incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary enquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईआई होम फाइनेंस लिमिटेड, आईसीआईआई एम्पएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ली रोड, अंधेरी (पू), मुंबई - 400059 भारत,
साखा कार्यालय: बी-60, दूसरी मंजिल, सेक्टर-बी, कागपुर रोड चेन्नै, ताम्रपे पॉलिमस युनाइटेड मॉल, लखनऊ-226012
(नियम 8 (4) का पर्यटक देखें) अथवा परिसंस्थितियों की विज्ञापन हेतु सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (4) के प्रावधान के साथ पठित नियम संश्लेषण के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अथवा संश्लेषण की विज्ञापन के लिए ई-नौलामी विज्ञापन सूचना
एकदशा आग जलता की और विशेष रूप से कर्जदार (रैं) और गारंटर (रैं) को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास संयोजक/प्रवाहित नीचे वर्णित अथवा संश्लेषण, जिसका कक्षा आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम दिया गया, यहां नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, 'जैसा है जहां है', 'जो है वहां है' और 'जो कुछ भी है वहां है' के आधार पर चेका जाएगा;

क्र.सं.	कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों/विधिक उपायकर्ता के नाम उपायकर्ता के नाम	ज्ञात ऋणगारों, यदि कोई हो, सहित प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	बकाया राशि	आश्रित मूल्य जमा धरोहर राशि	सम्पत्ति निष्कर्ष की तिथि एवं तिथि पूर्व समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं दिन पहले	संकेतिक चिह्न
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1.	मोहम्मद अली मंगुली (कर्जदार) (सह-कर्जदार) लैन नंबर LHLKS00001626932	राजल स्वयंसेवक नामक भवन में कार्यालय का हिस्सा, प्रोड्रोड प्लॉट नं. 4 तथा 24 पर निर्मित, दूसरी मंजिल, खरसा नं. 200 तथा 201 का हिस्सा, मोहल्ला आलिया नगर जाई शंकरपुरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226024 ई स्थित	रु. 1,65,55, 470/- 12 दिसम्बर, 2025	रु. 3,32,57, 250/- रु.33,25, 725/-	12 जनवरी, 2026 को 11:00 बजे एवं से 03:00 बजे अथ.	19 जनवरी, 2026 को 02:00 बजे अप. से 03:00 बजे अथ.	17 जनवरी, 2026 को 05:00 बजे अप. तक	संकेतिक चिह्न

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी वेब्यू टुट कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('यूआरएल लिंक-<https://BidDeal.in>) पर ऑनलाइन की जाएगी। चंकरकर्ताओं/संपत्ति को 17 जनवरी, 2026 को शाम 05:00 बजे तक ऑनलाइन ब्याज के साथ कुल बकाया का भुगतान करने का आखिरी मौका दिया जाता है, अन्यथा ये प्रतिभूत संपत्ति उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार चेकी जाएगी।
संभावित बोलीदाताओं को लेख के तहत पर उल्लिखित आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर या प्रयोग करने की चेकी की हस्ताक्षरित प्रति भी 16 अगस्त, 2025 को शाम 05:00 बजे तक जमा करनी होगी। जमा प्रयोग शाखा का हिमाड ड्राफ्ट (बीडी) "आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में शाखा कार्यालय ऊपर लिखित पते में देय ट्रेड्युक्चर/अनुसूचित बैंक से होना चाहिए।
निराकरण, नीलामी की शर्तों और नियमों का निव्याओं के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920067300 पर संपर्क करें।
अधिकृत अधिकारियों और कारण बनाए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। किसी भी विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया <https://www.iciciifh.com/> पर जाएं।
दिनांक: 17 दिसम्बर, 2025
स्थान: लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सीआरएन: U65922MH1999PLC120106

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंस्थितियों के विवरण करने हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सम्पत्ति ऋण/ ऋणियों/ बकायों को प्रत्येक के नाम के सामने धाराओं गवें खाने से उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख 'उत्तरा नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक ढंग पर संविदा दर और ब्याज, बसुली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए गाना नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों/ बकायों द्वारा जारी अदा करने में अग्रसर होने पर ऋणियों/ और जून सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाने के सामने दी गई तारीख को जून नियमों के नियम-8 को साथ पढ़ते हुए जून अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें बकाया ऋणियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कक्षा 15.12.2025 को ले लिया है। ऋणियों/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जून सामान्य को सामान्य रूप से वह चेतावनी दी जाती है कि ये जून सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देव राशि वास्तविक ढंग पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान को पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में स्पष्टीकृत तारीख से कक्षा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुसूच भी ढंग पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।
ऋणकर्ताओं और बकायकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आश्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपबन्ध सामान्य के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुगतान हैं

क्र०	ऋणी / बंधककर्ता व गारंटर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कक्षा नोटिस की तारीख	कक्षा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता: श्री अजय दिसावर पुत्र श्री पहाडी सिंह निवासी मकान नंबर, बहेट रोड, मृगा घाट, सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247001, और करिश्मा पत्नी अजय दिसावर, निवासी 58 / 19 चिपियाना 2, खाकरन नाम, मृगा गढ़ बहेट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247001	अचल संपत्ति: आवासीय मकान स्थित मकान संख्या 5 / 4227, प्लॉट संख्या 58, खरसा संख्या 430, 434, 440, 441, 443, 447, 458 और 460, दारा राजपुर बैलून, दर आबादी अमरदीप कोलोनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 121.66 वर्ग गज, बिस्ती विलेख के अनुसार सीमाये:- पूर्व: प्लॉट संख्या 57, वर्तमान में श्रीमती कृष्णा यादव का मकान, पश्चिम: प्लॉट संख्या 59, वर्तमान में नरेश यादव का मकान, उत्तर: 20 फीट का रास्ता, दक्षिण: नूर मोहम्मद का प्लॉट, वर्तमान में मकान	02.06.2025 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रु 6,72,535.00 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क दिनांक 02.06.2025 तक	15.12.2025	रु 6,72,535.00 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क
2.	ऋणकर्ता और बंधककर्ता: श्री अजय दिसावर पुत्र श्री पहाडी सिंह निवासी मकान नंबर, बहेट रोड, मृगा घाट, सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247001, और करिश्मा पत्नी अजय दिसावर, निवासी 58 / 19 चिपियाना 2, खाकरन नाम, मृगा गढ़ बहेट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247001	अचल संपत्ति: 1. ईएम भवन (गोदाम) प्लॉट संख्या 16 पर निर्मित, खरसा संख्या 444 एम दारा आबादी बालक नाम कोलोनी स्थित दारा मिलकाना बैलून सहारनपुर, श्रीमती करिश्मा पत्नी अजय दिसावर के नाम, सीमाये:- पूर्व: प्लॉट संख्या 15, पश्चिम प्लॉट संख्या 17, उत्तर: 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: श्री राशिद की भूमि। 2. उत्तरभूमी व्यावसायिक कुकान छत सहित खरसा संख्या 209 मि. से संबंधित, क्षेत्रफल 18.25 वर्ग गज स्थित ग्राम देवला बहेट रोड सहारनपुर, स्वाभिल अजय दिसावर पुत्र श्री पहाडी सिंह, सीमाये:- पूर्व: श्री सुरेश कुमार का मकान, पश्चिम: श्री चरण सिंह का प्लॉट, उत्तर: राजबहाल पट्टरी 14 फीट चौड़ी, दक्षिण: श्री चरण सिंह का प्लॉट 3. भूमि और भवन स्थित मोहल्ला मृगा गढ़, बहेट रोड के पास, सहारनपुर, पिन कोड 247001, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, स्वाभिल अजय दिसावर, सीमाये:- पूर्व: 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: श्रीमती सपना चानी और अन्य का प्लॉट, उत्तर: 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: श्रीमती बाला देवी का प्लॉट।	09.07.2025 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रु 9,72,764.00 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क दिनांक 09.07.2025 तक	15.12.2025	रु 10,19,168.00 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक- 16.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी



VLS FINANCE LIMITED
CIN: L65910DL1986PLC023129
Registered Office & Correspondence Address: Ground Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi - 110020.
Tel: + 91 11 46656866; E-mail: vls@vlsfinance.com; Website: www.vlsfinance.com
Contact Person: H. Consul, Company Secretary & Compliance Officer; Email: hconsul@vlsfinance.com

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS – BUY BACK OF EQUITY SHARES
VLS Finance Limited ("Company") has completed the dispatch of the Letter of Offer ("Letter of Offer") dated December 16, 2025, accompanied by Tender Forms, TDS Exemption Forms and SH-4, to Eligible Shareholders via electronic means on Tuesday, December 16, 2025. This communication was sent to shareholders who held equity shares as on the Record Date, Friday, December 12, 2025, and had registered their email addresses with the Company or Depositories.
Further, in terms of Regulation 9 (ii) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 ("SEBI Buy Back Regulations"), as amended, if the Company or the Registrar to the Buy Back receives a request from any Eligible Shareholder to obtain physical copy of the Letter of Offer, the Company shall dispatch a copy of the Letter of Offer in physical form.
The Schedule of Buy Back is as follows:

Activity	Date	Day
Date of Opening of the Buy Back/Buy Back Opening Date	December 18, 2025	Thursday
Date of Closing of the Buy Back/Buy Back Closing Date	December 24, 2025	Wednesday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents by the Registrar to the Buy Back*	December 24, 2025 by 5:00 PM	Wednesday

* For terms and conditions of Buy Back and other details, please refer Letter of Offer
For Detailed schedule of activities, please refer to the Letter of Offer. The details of the Buy Back entitlement ratio are as follows:

Category of Shareholders	Ratio of Buy Back (i.e. Buy Back Entitlement)**
Reserved category for Small Shareholders	39 (Thirty Nine) Equity Shares out of every 415 (Four Hundred and Fifteen) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	151 (One Hundred and Fifty One) Equity Shares out of every 762 (Seven Hundred and Sixty Two) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date

** The ratio of Buy Back indicated above is approximate and provides an indication of the Buy Back Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above ratio of Buy Back may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buy Back Entitlement for reserved category for Small Shareholders is 9.3975% and general category for all other Eligible Shareholders is 19.8162 %. For further information on Ratio of Buyback as per the Buyback entitlement in each Category, please refer paragraph 21.5 on page no 42 of the Letter of Offer.
ELIGIBLE SHAREHOLDERS CAN ALSO CHECK THEIR ENTITLEMENT ON THE WEBSITE OF THE REGISTRAR TO THE BUY BACK BY CLICKING THE FOLLOWING LINK: http://www.rcmcdelhi.com/dropbox/vls_buyack_entitlement_2025.pdf
The Letter of Offer including the Form of Acceptance/Company-Acknowledgement ("Tender Form") shall be available on the website of the Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, on the website of the Company at www.vlsfinance.com, of the Manager to the Buy Back at www.newberry.in, and of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com. Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the LDF.
As per Regulation 24(ii)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company ("Board") accepts responsibility for the information contained in this Letter of Offer and confirms that this Letter of Offer contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.
This Letter of Offer is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on November 22, 2025 and by the Buy Back Committee on December 16, 2025.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Suresh Kumar Agarwal Managing Director DIN : 00106703 Place: New Delhi	Kishan Kumar Soni Director Finance & CFO DIN : 00106703 Place: New Delhi	H. Consul Company Secretary & Compliance Officer ICSI Membership No. : A11183 Place: New Delhi

Date: December 16, 2025



THE BUSINESS DAILY
FOR DAILY BUSINESS



FINANCIAL EXPRESS

Criminal Courts Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)
In the court of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
Dinesh Partap Singh
CNR NO: PBLD03-031927-2024
COMA/9425/2024
1. Dinesh Partap Singh relative of address: r/o h n o c 1244 d SGM nagar nit faridabad- 121001 haryana
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 16-01-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and seal of the court, for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=districnt_oice&district=ludhiana
JMJC, Ludhiana
dated, this day of 04.12.2025



एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
निर्माण कार्यालय : 803 एवं 804, 5वां तल, जी-ब्लॉक, इंदिरापुर रोकेली, रोकेली नैन रोड, बांदा कुर्ली ऑफिस, बांदा (पू), मुंबई-400051
महाराष्ट्र, पंजीकृत कार्यालय : कोमलसी आर्टी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नंबर 111, मार्टेड पुल्लोरी रोड, पोरर, चेन्नई 600116, तमिलनाडु

क्र.सं.	उधारकर्ता (रैं) के नाम / गारंटर	संपत्तियों का विवरण	आश्रित मूल्य : धरोहर राशि जमा	ई-नीलामी की तिथि और समय	ईएमपी जमा तिथि :
1.	एलएन नं- 610839211295144 1. निमित सुदेश सिंह पत्नी सुदेश सिंह 2. दर्शन कौर	एक रिहायशी मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है, खरसा नंबर 18 में स्थित, गांव मोहम्मदपुर लाला, पररना तहसील और जिला मेरठ। पूर्व दूसरा मकान, पश्चिम: 12 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: भीतम का मकान, दक्षिण: दूसरे प्लॉट।	रु 11,80,000 / - रु. 1,18,000 / -	27.01.2026 को सुबह 11:00 बजे से सायं 01:00 बजे तक	26.01.2026

बिना के विस्तृत नियम तथा शर्त निम्नानुर है और निव्या, निम्नलिखित लिंक वेबसाइट के पते पर हमारी : प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट <https://BidDeal.in> और <https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf> पर भी उपलब्ध करार गए हैं। इच्छुक बोलीदातागान, श्री आशीष कोहलार से उनके मोबाइल नंबर 8627134222, ई-मेल : ashish.kaushal@grihashakti.com नवीन कुमार तामर, उनके मोबाइल नंबर 7042835883, ई-मेल : Naveen.Tomar@grihashakti.com और श्री निव्या से से उनके मोबाइल नंबर 9920697801, ई-मेल: nily.dey@grihashakti.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : मेरठ, उत्तर प्रदेश
दिनांक : 16-12-2025

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document announcement)



INDOWIND ENERGY LIMITED
Corporate Identity Number: L40108TN1995PLC032311
Our Company was incorporated on July 19, 1995, pursuant to certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Chennai, as a private limited Company under the name of "Indowind Energy Private Limited". Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Indowind Energy Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name on conversion to public limited company was issued by the Registrar of Companies, Chennai, on September 30, 1997.
Registered Office: 4th Floor, Kothari Building, 114, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai Tamil Nadu, 600 034, India
Contact person: B. Sharath, Company Secretary and Compliance Officer
Registered Office Telephone: 044-28331310 | **E-mail id:** bsharath@indowind.com | **Website:** www.indowind.co.in
PROMOTERS OF OUR COMPANY: BALA VENCKAT KUTTI, INDUS FINANCE LIMITED AND LOYAL CREDIT & INVESTMENTS LIMITED
ISSUE OF 3,22,00,434 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 15.35 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 5.35 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹4,942.77 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 4 FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS NOVEMBER 19, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 196 OF THE LETTER OF OFFER.
BASIS OF ALLOTMENT
The Board of Directors of Indowind Energy Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Monday, December 01, 2025 and closed on Tuesday, December 09, 2025 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Thursday, December 04, 2025. Out of the total 3,469 Applications for 3,34,82,985 Rights Equity Shares, 491 Applications for 1,68,131 Rights Equity Shares were rejected (including 1,470 Rights Equity Shares partially rejected) due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 2,978 for 3,33,14,854 Rights Equity Shares, which was 103.46% of the Rights Equity Shares Allotted under the Issue. The Basis of Allotment was finalized on Friday, December 12, 2025 by the Company in consultation with the Lead Manager to the Issue, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Right Issue Committee of the Company, at its meeting held on Friday, December 12, 2025, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 3,22,00,434 fully paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.
1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is as under:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares allotted	
	Number	%	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)
Eligible Shareholders	2,934	98.52	2,13,90,015	32,83,36,730.25	64.21	2,13,90,015
Renounees	44	1.48	1,19,24,839	18,46,42,878.65	35.79	1,08,10,419
Total	2,978	100.00	3,33,14,854	51,13,63,008.90	100.00	3,22,00,434

2. Summary of Allotment is as under:

Category	No. of valid applications received		No. of Rights Equity Shares accepted and Allotted against Rights Entitlement (A)		No. of Rights Equity Shares accepted and Allotted against Additional Rights Equity Shares applied for (B)		Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number	Number	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)
Eligible Shareholders	2,934	1,69,94,442	43,95,573	6,60,38,509.50	2,13,90,015	32,83,36,730.25	2,13,90,015	32,83,36,730.25
Renounees	44	92,345	1,07,18,074	16,10,42,878.65	1,08,10,419	16,59,39,931.65	1,08,10,419	16,59,39,931.65
Total	2,978	1,70,86,787	1,51,13,647	22,70,81,388.15	3,22,00,434	49,42,76,661.90	3,22,00,434	49,42,76,661.90

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on Friday, December 12, 2025. The dispatch of allotment advice cum refund intimation to investors, as applicable, commenced on Tuesday, December 16, 2025 and has been completed on Tuesday, December 16, 2025. The Listing application was filed with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on Saturday, December 13, 2025 and subsequently the listing approvals were received on Monday, December 15, 2025. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees were completed on Monday, December 15, 2025 by CDSL and Tuesday, December 16, 2025, by NSDL respectively. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page 221 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading permission, applications for the same are being made, and shall be traded under same ISIN INE227G01018 as the existing Equity Shares of the Company. The trading is expected to commence on or about Friday, December 26, 2025.
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM
DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI
The present issue, being less than ₹5,000 Lakhs, our company is in compliance with first proviso to Regulation 3 of the SEBI ICDR Regulations and our company has filed a copy of the letter of offer prepared in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations with SEBI for information and dissemination on the website of SEBI for informative purposes.
DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to page 190 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited".
DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: "It is to be distinctly understood that the



மதுரை-சென்னை எழும்புரை இணைக்கும் தெற்கு ரயில்வேயின் ஒரு முக்கியமான அதிவிரைவு ரயிலான 'பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ்' 1969 அக்டோபர் 1-ம் தேதி பயணத்தை தொடங்கியது. இந்த ரயிலுக்கு பாண்டிய ராஜ்ஜியத்தின் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

இந்து தமிழ் திசை

ஊர்வலம்

▶ புதன், டிசம்பர் 17, 2025

▶ www.hindustamil.in



▲ மார்கழி மாத முதல் நாளான நேற்று சென்னை மயிலாப்பூர் மாடவீதிகளில் அதிகாலையில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் பஜனை பாடியபடி ஊர்வலமாகச் சென்றனர்.

படம்: எல்.சீனிவாசன்



கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி, பழங்கள், பூக்கள் இன்றைய விலை நிலவரம் (1 கிலோவுக்கு)

காய்கறிகள்	கருணைக்கிழங்கு	ரூ.35
பீன்ஸ்	ரூ.40	
பீரூட்	ரூ.20	பழங்கள்
பாகற்காய்	ரூ.30	ஆப்பிள்
கரைக்காய்	ரூ.30	சாத்துக்குடி
கத்தரிக்காய்	ரூ.10	ரூ.50
முட்டை கோல்	ரூ.10	மாதுளை
கோட்	ரூ.35	கொய்யா
சவ் சவ்	ரூ.10	கற்பூவள்ளி
முருங்கைக்காய்	ரூ.150	ஏலக்கி
இஞ்சி	ரூ.50	செவ்வாழை
பச்சை மிளகாய்	ரூ.40	நீந்திரம்
அவரைக்காய்	ரூ.30	டிர்கான் (ஒன்று)
நூக்கல்	ரூ.20	திராட்சை (கருப்பு)
வெண்டைக்காய்	ரூ.40	அன்னாசி
பெரிய வெங்காயம்	ரூ.16	
சாம்பார் வெங்காயம்	ரூ.30	பூக்கள்
உருளைக்கிழங்கு	ரூ.15	சாமந்தி
முள்ளங்கி	ரூ.10	மல்லி
கோவைக்காய்	ரூ.36	ஜாதிமல்லி
புலங்காய்	ரூ.30	முல்லை
நாட்டு தக்காளி	ரூ.34	ரோஜா
நவீன தக்காளி	ரூ.50	சாம்பங்கி

ORDER WATER TODAY

repute

www.repute20.com

98845 44444

திருபுவனம் ராமலிங்கம் கொலை வழக்கு

என்ஜர அதிகாரிகளால் தேடப்பட்ட 2 பேர் கைது

சென்னை

திருபுவனம் ராமலிங்கம் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்ட 2 பேரை தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஜர) அதிகாரிகள் நேற்று கைது செய்தனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சும்பக்கோணம் அருகேயுள்ள திருபுவனத்தைச் சேர்ந்தவர் பாமக முன்னாள் நகரச் செயலாளர் ராமலிங்கம். அப்பகுதியில் மத மாற்றத்தில் ஈடுபட்ட சிலரைக் கண்டித்ததால் 2019 பிப்ரவரி மாதம் மரம் நடர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இது தொடர்பாக திருவிடைமருதூர் போலீஸார் விசாரணை நடத்தி, குறிச்சிமலை பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது ரியாஸ், திருபுவனம் நிலாாம் அலி, சர்புதின், முகமது ரிஸ்வான், திருவிடைமருதூர் அசாநூதின், திருமங்கல்குடி முகமது தலபீக், முகமது பர்வீஸ், அவணியாபுரம் தவ்ஹித் பாட்சா, காரைக்கால் பெரு மாள் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த முகமது ஹசன் குத்தூர்ஸ் உள்ளிட்டோரை அடுத்தடுத்து கைது செய்தனர். மேலும், தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்தைச் சேர்ந்த வர்களும் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

பின்னர், இந்த வழக்கு எஞ்ஞ வசம் ஒப்படைக்கப் பட்டது. என்ஜர அதிகாரிகள் ராமலிங்கம் கொலை தொடர்பாக புதிதாக வழக்கு பதிவு செய்து, அடுத்தடுத்து கைது நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு நட 18 பேர் மீது என்ஜர அதிகாரிகள், சென்னை பூத்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். மேலும், தலைமறைவாக இருக்கும் நபர்களைக் கைது செய்ய தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.

இந்நிலையில், இந்தக் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய முகமது அலி ஜின்னா மற்றும் அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த அன்மத் ஆகியோரை என்ஜர அதிகாரிகள் நேற்று கைது செய்தனர். பின்னர், கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் பூத்தமல்லியில் உள்ள என்ஜர சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், நீதிபதி மலர்விழி முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தினர். முகமது அலி ஜின்னாவை ஜன. 18-ம் தேதி வரையும், அன்மத்தை ஜன. 19-ம் தேதி வரையும் நீதிமன்றம் காவலில் சிறையிட்டு அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, இருவரும் பூஸ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இருவரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கத் திட்டமிட்டிருப்பதாகவும், ராமலிங்கம் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரையும் கைது செய்து விட்டதாகவும் என்ஜர அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இசைமழையில் நனையவைத்த அபிஷேக் ரவிசங்கர்

கே.சுந்தரராமன்

சென்னை

சென்னை மியூசிக் அகாடமியின் 99-வது இசைவிழா நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கிவிட்டன. சென்னையில் ஒவ்வொரு சாவிலும் இசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றாலும், மியூசிக் அகாடமிக்கு என்று ஒரு தனி பெயர், முத்திரை உண்டு. நூற்றாண்டை நோக்கி பயணிக்கும் இந்த சபையில், இசை கச்சேரி நிகழ்த்துவதை, கலைஞர்கள் பெரும் சாதனையாக கருதுவர். பல தேர்வுகளைக் கடந்த பின்னரே, ஒருவர் மியூசிக் அகாடமி மேடையில் பாட அனுமதிக்கப்படுவதுண்டு.

வளர்ந்து வரும் இசை கலைஞர் அபிஷேக் ரவிசங்கரின் கச்சேரி, மியூசிக் அகாடமியில் நடைபெற்றது. முதலில் தன் தாயிடம் இசை கற்கத் தொடங்கிய அபிஷேக் ரவிசங்கர், இசைமேதை பி.எஸ்.நாராயணசுவாமி யின் சி.ரான ஏ.எஸ்.முரளிபீடம் இசை பயின்றார், தன்னை மேருகேற்றிக் கொண்டார். கச்சேரியில் அவருக்கு பக்கபலமாக பார் கல் டும்சுர் (வயலின்), ஸ்ரீராம் சீனிவாசன் (மிருதத்தனர்).

ஏராநாபை எனத் தொடங்கும் பட்டணம் சுப்பிரமணிய ஐயரின் தோடி



ராக வர்ணத்துடன் கச்சேரியைத் தொடங்கினார் அபிஷேக் ரவிசங்கர். அடுத்ததாக மார்கழி மாதத்தின் முதல் நாள் திருப்பாவையை (மார்கழித் திங்கள் - நாட்டை ராகம்) பாடினார். அவர் பாடிய ஒவ்வொரு வரியிலும் நிழல் போல வயலினில் பார் கல் தொடர்ந்து கொண்டு வந்தார்.

கல் யாணி ராகத்தில் சிறிய ஆலாபனை செய்துவிட்டு, 'பஜரே ரே சித்த' என்ற கருதியை எடுத்துக் கொண்டார். சரணத்தில் வரும் 'தேவீம் சக்தி பஜோத்பவ மாத்ரு காரண ஸ்ரீரணீம்' என்ற வரியை நிர்வல் செய்தார். இந்தப் பாடலில் பாலாம்பிகா பக்தர்களுக்கு கல் விருட்சம் போல் இருப்பதாக



போற்றப்படுகிறார். அதன் பின்னர் 44-வது மேளகர்த்தா பவப்ரியா ராகத்தில் அமைந்த தியாகராஜ கீர்த்தனையை (ஸ்ரீகாந்த் நியை) பாடிவிட்டு, பிரதான ராகமாக கர்ஹரப்ரியாவில் அமைந்த தியாகராஜ கீர்த்தனையை தேர்ந்தெடுத்தார் அபிஷேக்.

வில்லுதாரமான ஆலாபனைக்குப் பின் பிரபலமான 'சக்கனிராஜ மார்க் கமு' கீர்த்தனைத் தொடங்கி. அதில் 'கண்டுகி சுந்தர' என்ற வரியில் நிர்வல் செய்து, அதற்கு ஸ்வரக் கோர்வைகளைப் பாடினார். ஸ்ரீராம் சீனிவாசன் தனி ஆவர்த்தனத்தில் மிளிர்ந்தார்.

மோகன ராகத்தில் அமைந்த ஸ்வாதித் திருநாளின் கீர்த்தனை, அருணகிரிநாதர் திருப்புகழில் கச்சேரி நிறைவு பெற்றது. அபிஷேக் ரவிசங்கர் பாடியபோது, ஆங்காங்கே செம்மங்குடி பாணி தென்பட்டது. செம்மங்குடி சீனிவாசப்பிரிடம் இசை பயின்றவர் பி.எஸ்.நாராயணசுவாமி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document announcement)



INDOWIND ENERGY LIMITED

Corporate Identity Number: L40108TN1995PLC032311

Our Company was incorporated on July 19, 1995, pursuant to certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Chennai, as a private limited Company under the name of "Indowind Energy Private Limited". Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Indowind Energy Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name on conversion to public limited company was issued by the Registrar of Companies, Chennai, on September 30, 1997.

Registered Office: 4th Floor, Kothair Building, 114, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai Tamil Nadu, 600 034, India

Contact person: B. Sharath, Company Secretary and Compliance Officer

Registered Office Telephone: 044-28331310 | E-mail id: bsharath@indowind.co.in | Website: www.indowind.co.in

PROMOTERS OF OUR COMPANY: BALA VENKAT KUTTI, INDUS FINANCE LIMITED AND LOYAL CREDIT & INVESTMENTS LIMITED

ISSUE OF 3,22,00,434 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 15.35 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 5.35 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹4,942.77 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 4 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS NOVEMBER 19, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 196 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Indowind Energy Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Monday, December 01, 2025 and closed on Tuesday, December 09, 2025 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Thursday, December 04, 2025. Out of the total 3,469 Applications for 3,34,82,985 Rights Equity Shares, 491 Applications for 1,68,131 Rights Equity Shares were rejected (including 1,470 Rights Equity Shares partially rejected) due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 2,978 for 3,33,14,854 Rights Equity Shares, which was 103.46% of the Rights Equity Shares Allotted under the Issue. The Basis of Allotment was finalized on Friday, December 12, 2025 by the Company in consultation with the Lead Manager to the Issue, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Right Issue Committee of the Company, at its meeting held on Friday, December 12, 2025, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 3,22,00,434 fully paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is as under:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Shareholders	2,934	98.52	2,13,90,015	32,83,36,730.25	64.21	2,13,90,015	32,83,36,730.25	66.43
Renounees	44	1.48	1,19,24,839	18,30,46,278.65	35.79	1,08,10,419	16,59,39,931.65	33.57
Total	2,978	100.00	3,33,14,854	51,13,83,008.90	100.00	3,22,00,434	49,42,76,661.90	100.00

2. Summary of Allotment is as under:

Category	No. of valid applications received	No. of Rights Equity Shares accepted and Allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and Allotted against Additional Rights Equity Shares applied for (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Number	Number	Number	Number	Number
Eligible Shareholders	2,934	1,69,94,442	43,95,573	2,13,90,015
Renounees	44	92,345	1,07,18,074	1,08,10,419
Total	2,978	1,70,86,787	1,51,13,647	3,22,00,434

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The instructions to SCBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on Friday, December 12, 2025. The dispatch of allotment advice cum refund intimation to investors, as applicable, commenced on Tuesday, December 16, 2025 and has been completed on Tuesday, December 16, 2025. The Listing application was filed with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on Saturday, December 13, 2025 and subsequently the listing approvals were received on Monday, December 15, 2025. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees were completed on Monday, December 15, 2025 by CDSL and Tuesday, December 16, 2025, by NSDL respectively. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page 221 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading permission, applications for the same are being made, and shall be traded under same ISIN INE227G01018 as the Rights Equity Shares of the Company. The trading is expected to commence on or about Friday, December 26, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI

The present issue, being less than ₹5,000 Lakhs, our company is in compliance with first proviso to Regulation 3 of the SEBI ICDR Regulations and our company has filed a copy of the letter of offer prepared in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations with SEBI for information and dissemination on the website of SEBI for informative purposes.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to page 190 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited".

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to page 190 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of NSE".

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated November 13, 2025 filed with the BSE Limited, the National Stock Exchange of India Limited and the Securities and Exchange Board of India.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
<p>MARK</p> <p>Mark Corporate Advisors Private Limited</p> <p>404/1, The Summit, Sant Janabai Road (Service Lane), Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai 400 057.</p> <p>CIN: U67190MH2008PTC181996</p> <p>Telephone: + 91 22 2612 3207/08</p> <p>E-mail: rightissue@markcorporateadvisors.com</p> <p>Investor grievance e-mail: investor@grievance@markcorporateadvisors.com</p> <p>Contact person: Niraj Kothari</p> <p>Website: www.markcorporateadvisors.com</p> <p>SEBI registration number: INM000012128</p>	<p>Bigshare Services Private Limited</p> <p>Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai 400 093.</p> <p>CIN: U99999MH1994PTC076534</p> <p>Telephone: + 91 22 6263 8200/22</p> <p>Email: rightissue@bigshareonline.com</p> <p>Investor grievance e-mail: investor@bigshareonline.com</p> <p>Contact Person: Suraj Gupta</p> <p>Website: www.bigshareonline.com</p> <p>SEBI registration no.: INF000001385</p>

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

B. Sharath

Email: bsharath@indowind.co.in | Website: www.indowind.co.in

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating the ASBA process may be addressed the Registrar to the Issue, with a copy to the concerned SCBS, giving full details such as name, address of the Applicant, contact numbers, e-mail address of the sole/first holder, folio number, serial number of the Application Form or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the concerned SCBS where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process see "Terms of the Issue" on page 196 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

FOR INDOWIND ENERGY LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Place: Chennai

Date: December 16, 2025

Sd/-

B. Sharath

Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Indowind Energy Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed the Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchanges. The Letter of Offer shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of BSE Limited at www.bseindia.com, website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, the website of the Registrar at www.bigshareonline.com, the website of the Lead and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 20 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are being offered and sold outside the United States in compliance with Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

எனவே, கடன் தாரர்/இணை-கடன் தாரர்/ஐபிஎல் தாரர்/அடமானதாரருக்கு வசன் 2-ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி அடுத்த கடன் தாரர்/இணை-கடன் தாரர் எதிராக வசன் 6-ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மொத்த தொகையை செலுத்தவாறு அனுப்பு விறகுக்கப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பு வெளியான 60 நாட்களுக்குள் வசன் 2-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடன் தொகை மற்றும் வட்டி மற்றும் பணம் செலுத்தும் தேதியை செலுத்தப்பட்டு, வேண்டிய பிற வட்டி அளவிற்குள் சேர்த்து அடுத்த கடன் கணக்கில் செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு வறுமூட்டத்தில் ஐதா ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், மேற்கூறியவற்றின் வசன் 4 குறிப்பிட்டுள்ள சொத்துக்களை பாதுகாப்பு வட்டி அளவிற்குள்ளபடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நிதி சட்டத்தின்படி கடன் தாரர்கள்/இணை-கடன் தாரர்கள்/ஐபிஎல் தாரர்கள் மற்றும் அடமானதாரர்களுக்கு எதிராக ஐதா ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் உரிமையளிக்கும் திறன் திருவருக்கு பாடப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு தவறு செய்யக் கூடாது என்பதில் நாம் உறுதியாக இருக்கிறோம். மேற்படி சட்டத்தின் பிரதி 13(1)ன்படி பாதுகாப்பாக அனுப்பப்படுகின்ற அனுமதி கையாள்வோர் அனுமதி கடன் வழங்கியவரின் முன் அனுமதியின்றி அடமான சொத்தினை குத்தகை அல்லது வேறு வழியின் மூலம் பின்பற்றும் செயல்களை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாள் : 17.12.2025 இடம் : சென்னை

Sd/- அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, ஐதா ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட்